

मणिपुर राज्य में भूमिजल की रासायनिक गुणवत्ता

राम प्रकाश¹

फनि कुमार कौवर²

सारांश

मणिपुर राज्य के भूमिजल का रासायनिक विश्लेषण परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि भूजल में कैलिशयम और मैगनीशियम मुख्य धनायन हैं केवल थूबल जिले में सोडियम व पोटेशियम धनावेश पाये गये हैं। जैसे-जैसे हम घाटी की तरफ बढ़ते हैं कैलिशयम व मैगनीशियम आयनों की अधुलनशीलता बढ़ जाती है और इनकी मात्रा घटने लगती है। इससे सोडियम व पोटेशियम धनावेश अधिक होने लगते हैं। ऋणावेश मुख्यतः बाइकार्बोनेट एवं सल्फेट हैं लेकिन थूबल जिले में क्लोराइड मुख्य ऋणावेश है।

सूक्ष्म तत्वों की सघनता उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने पर बढ़ती है। घाटी में लैड, लीथियम, जिंक आदि बहुतायत से थूबल जिले में पाये जाते हैं। कुछ स्थानों को छोड़कर जहां पर लैड, आइरन, लीथियम तथा चालकता अधिक पाई गई है। साधारणतः राज्य का भूमिजल पीने एवं कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है।

प्रस्तावना

देश की अधिकांश आवादी भूमिजल को पीने एवं कृषि के लिये सदियों से प्रयोग करती चली आ रही है। विभिन्न प्राकृतिक परिवर्तनों से भूमिजल में उपयोगी तथा अनुपयोगी आयन घुलमिल जाते हैं। यह आवेश विभिन्न जैविक एवं घरेलू कियाओं में सीधे या परोक्ष रूप से विपरीत प्रभाव डालते हैं, इसलि इन आवेशों की उपस्थिति एवं मात्र जानना नितान्त आवश्यक है।

मणिपुर राज्य भूगर्भ संरचना के अनुसार मुख्यतः जयंतिया और दिसांग प्रारूप से घिरा है और इसमें कोमाइट, कापर, लोहा, निकिल, चूना आदि के अयस्क मिलते हैं। राज्य की भूमिजल का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें क्लोराइड 8946 मि०ग्रा०/ली०, सोडियम 6600 मि०ग्रा०/ली०, लोहा 11 मि०ग्रा०/ली०, चालकता 27900 मा०सी०/से०मी०, कोमियम 30 मा०ग्रा०/ली०, मैग्नीज 970 मा०ग्रा०/ली०, कापर 40 मा०ग्रा०/ली०, लीथियम 3150 मा०ग्रा०/ली०, रुबिडियम 130 मा०ग्रा०/ली०, लेड 270 मा०ग्रा०/ली० तक कुछ स्थानों पर पाया गया जो कि विभिन्न अनुमोदित मापदण्डों से अधिक है।

1 आंचलिक रासायनिक प्रयोगशाला, कालापहाड़, गुवाहाटी – 781 016

2 आंचलिक रासायनिक प्रयोगशाला, कालापहाड़, गुवाहाटी – 781 016

भौगोलिक स्थिति

मणिपुर राज्य पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से N lat $23^{\circ} 50'$ से $25^{\circ} 45'$ तथा E long $93^{\circ} 00'$ से $94^{\circ} 45'$ तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किमी² है लेकिन ज्यादातर भाग पहाड़ी होने के कारण केवल 8.3% ही धान की खेती के लिये प्रयोग में लाया जाता है। राज्य की राजधानी इम्फाल, गौहाटी और पूरे भारत से राष्ट्रीय राजपथ 39 और 44 द्वारा जुड़ी हुई है। इसके चारों ओर बर्मा, नागालैण्ड, मिजोरम और आसाम की सीमाएँ हैं।

जलधटक एवं स्वास्थ्य

भूमिजल की रासायनिक संरचना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित सारणी-1 में दी गयी है। क्लोराइड शरीर में गुर्दे एवं हृदय, सोडियम उच्च रक्त दाब, लोहा हीमोक्रोमेटोसिस, कैडमियम से श्वासनली, मैंगनीज से मैंगनीजम, लैड से जहर आदि जैविक प्रभाव पाये गये हैं। और इनकी जैविक क्रियाओं पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण राज्य के भूमिजल का रासायनिक विश्लेषण किया गया।

भूगर्भ संरचना

मणिपुर राज्य का दो तिहाई हिस्सा पहाड़ी है और दिसांग एवं जयंतिया प्रारूप (इयोसीन) का बना हुआ है। जयंतिया प्रारूप में कहीं कहीं पर चूने के पत्थर भी पाये जाते हैं। शेष एक तिहाई भाग बराइल और सूरमा संरचना से बना हुआ है। मध्य भाग में एलूबियम भी पाया जाता है।

खनिज अयस्क

राज्य में अधिकांशतः खनिज लटकट झील के आसपास पाये गये हैं और इनमें क्रोमाइट, लौह, कापर, निकिल, चूना, तेल एवं प्राकृतिक गैस मुख्यतः हैं। इन खनिजों की विलयशीलता पर ही भूमिजल की रचना निर्भर करती रहती है।

भूमि जल की रासायनिक संरचना


मणिपुर राज्य से एकत्रित भूमिजल के नमूनों का रासायनिक संगठन सारणी-2 एवं 3 में दर्शाया गया है और जिलानुसार निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है :—

- 1- विशनपुर जिला : यह राज्य के मध्य का जिला है और इसमें लौह की मात्रा आवश्यकता से अधिक पाई गई है अतः पीने के पूर्व इसे साफ करना आवश्यक है।
- 2- चन्देल जिला : इस राज्य में लौह $1.4 \text{ मिंग्रा०}/\text{ली०}$, मैंगनीज $396 \text{ माठ्ग्रा०}/\text{ली०}$, जिंक $210 \text{ माठ्ग्रा०}/\text{ली०}$ कुछ जगहों पर पाया गया है। अन्य पेयजल स्रोत की अनुपस्थिति में इसे प्रयोग में लाया जा सकता है।
- 3- चूराचांदपुर जिला : इस जिले में जल थोड़ा क्षारीय प्रकृति का तथा लोहा $5.2 \text{ मिंग्रा०}/\text{ली०}$ तक पाया गया है। लौह की सफाई पीने के पूर्व जरूरी है।

- 4- इम्फाल जिला : विद्युत चालकता 800 मा०सी०/सेमी० एवं सोडियम 50 मि०ग्रा०/ली० तक भूमिजल में पाये जाने वाले इस जिले में मैगनीज 200 मा०ग्रा०/ली० एवं रुबीडियम 66 मा०ग्रा०/ली० तक पाया गया है अन्यथा पानी पीने योग्य है ।
- 5- सेनापति जिला : इस जिले का पानी पीने के योग्य है । सेनापति के सेकमई स्थान पर मैगनीज 1247 मि०ग्रा०/ली०, जिंक 476 मा०ग्रा०/ली० पाई गई है ।
- 6- तमेंगलांग जिला : विद्युत चालकता तथा सोडियम की मात्रा पानी की उपयोगिता को घटा देती है अन्यथा बाकी तत्त्व निर्धारित मात्रा के अन्दर है ।
- 7- थूबल जिला : राज्य के मध्य में स्थित इस जिले में चालकता 27900 मा०सी०/ली०, क्लोराइड 8946 मि०ग्रा०/ली०, सोडियम 6600 मि०ग्रा०/ली०, लोहा 11 मि०ग्रा०/ली०, मैगनीज 970 मा०ग्रा०/ली०, निकल 150 मा०ग्रा०/ली०, लैड 270 मा०ग्रा०/ली०, लीथियम 3150 मा०ग्रा०/ली० तक वाइखांग में पाया गया है और यह पानी जैविक दृष्टि से पीने के लिये बिल्कुल अनुपयुक्त है ।

सारणी-1
घरेलू प्रयोग के जल का रासायनिक मापदण्ड

Sediment	Unit	Guideline Value
एलूमिनियम	mg/l	0.2
आर्सेनिक	mg/l	0.05
कैडमियम	mg/l	0.005
कैल्शियम	-	no guideline value
क्लोराइड	mg/l	250
कोमियम	mg/l	0.05
कापर	mg/l	1.0
चालकता	μs/cm	1600
फ्लोराइड	mg/l	1.5
कठोरता	mg/l	500
लोहा	mg/l	0.3
लैड	mg/l	0.05
मैग्नीज	mg/l	0.1
मरकरी	mg/l	0.001
नाइट्रोट	mg/l	45
पी०एच०	-	6.5 - 8.5
सल्फेट	mg/l	400
सम्पूर्ण ठोस	mg/l	1000
जिंक	mg/l	5



मणिपुर राज्य में भूमिजल में रासायनिक तत्वों का जिलेवार वितरण

District	pH	EC μs/cm	Cl μs/cm	No ₃	F	PO ₄ (सांदर्भ नियंत्रण/लिंग)	TH	Ca	Mg	Na	K	Fe	SiO ₂
विश्वनाथपुर	6.90-7.70	88-170	11-18	.1-.1	1.2	0-.1	34-45	8-8	4-6	6-7	1-2	.8-1.5	2-4
चंदेल	7.91-8.00	209-399	31-36	2-5.6	0-1	.1-.5	25-100	8-26	1-8	17-25	2-4	.2-1.4	10-18
चूराचांचपुर	8.02-9.20	355-400	25-31	0-.2	0-0	0-.1	100-140	18-28	13-17	13-16	1-2	.2-5.2	6-8
इंकाल	8.10-8.31	227-830	21-81	4-1.5	0-1	1-2	50-215	12-54	5-19	15-50	3-20	.2-1.2	8-30
सेनापति	7.54-8.14	86-681	11-60	0-1.8	0-0	.1-1	20-155	2-32	4-18	6-38	3-31	.4-1.5	10-15
तसेंगलांग	8.47-8.50	351-1000	14-21	0-2.2	.2-.5	.1-1.1	120-185	14-30	11-36	7-108	3-16	.6-2	11-20
भूखल	7.83-8.38	554-27900	11-8946	0-2.7	0-2	.2-7	100-250	20-42	12-46	15-6600	4-34	.3-11	13-18

मणिपुर राज्य के भूभिजल में सूक्ष्म तत्वों का जिलेवार वितरण
(range of ions in microgram per litre)

District	Ag	Cd	Co	Cr	Cu	Mn	Mo	Ni	Pb	Zn
विशनपुर	1-1	-	5-5	4-4	7-7	31-31	40-40	12-12	10-10	105-105
चंदेल	2-2	0-1	9-24	1-6	4-11	278-396	20-30	15-70	8-11	97-210
जूराचान्दपुर	-	-	7-7	2-2	8-8	38-38	40-40	9-9	15-15	37-37
इफाल	1-2	1-1	5-7	1-3	7-11	41-220	20-30	10-16	12-22	34-52
सेनापति	1-2	1-2	3-10	1-2	4-8	102-1274	10-60	10-30	7-22	73-474
तम्बगलांग	2-2	2-2	8-8	5-5	7-7	76-76	60-60	37-37	23-23	86-86
थूबल	1-31	1-30	2-19	2-30	4-40	15-970	50-70	10-150	10-270	90-316